



Parth sarthi tripathi

02 Apr 2012

05:55 PM

Lucknow

Model: Web-MyKundli

Order No: 121672701

सूचना

ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने हेतु ग्रहों की स्थिति एवं इसके बल की गणना की जाती है। जन्मपत्रिकाओं की गणना अति सटीक है जिसमें बिल्कुल सही रेखांश प्रयुक्त हुए हैं। सामान्य तौर पर इसमें चित्रापक्षीय अयनांश का प्रयोग किया जाता है जबतक कि आप दूसरे अयनांश का विकल्प न मांगें।

कम्प्यूटर जन्मपत्रिकाएं मुख्य रूप से पाराशरी पद्धति पर आधारित है। हालांकि इसमें ताजिक पद्धति, जैमिनी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, प्रश्नशास्त्र एवं पाश्चात्य पद्धतियों का भी ज्योतिषीय गणना में मिश्रण किया गया है। फलादेश मुख्य रूप से विभिन्न प्राचीन शास्त्रों जैसे बृहत् पराशर, होराशास्त्र, मानसागरी, सारावली, जातकभरणम, बृहत् जातक, फलदीपिका, जातक पारिजात के अनुरूप, साथ ही अपने अनुभवों का भी समावेश करके बनाया गया है। फिर भी, ज्योतिष का मार्गदर्शन लेकर हम अपने भविष्य का संकेत मात्र प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ही यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आनेवाले समय में क्या घटित होगा ?

यह जन्मपत्रिका जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान पर आधारित है जो कि जातक ने हमें उपलब्ध कराया है। अतः आंकड़ों की सटीकता से संबंधित हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ज्योतिषीय गणना एवं फलादेश जातक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के ऊपर आधारित है। जन्मपत्रिका में दिए गए फलादेश जातक के लिए सिर्फ संकेत मात्र है जिस पर जातक को सावधानीपूर्वक अमल करना चाहिए न कि हूबहू जैसा फलादेश में कहा गया है, बिना सोचे समझे उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जन्मपत्रिका के विभिन्न पृष्ठों में दी गयी सूचनाएं किसी भी प्रकार के विवाद अथवा वैधानिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जातक की स्वयं की कार्यवाही से उत्पन्न हुए किसी भी क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं है।

लिंग _____: पुल्लिंग
जन्म तिथि _____: 02/04/2012
दिन _____: सोमवार
जन्म समय _____: 17:55:00 घंटे
इष्ट _____: 29:56:51 घटी
स्थान _____: Lucknow
राज्य _____: Uttar Pradesh
देश _____: India

अक्षांश _____: 26:50:00 उत्तर
रेखांश _____: 80:54:00 पूर्व
मध्य रेखांश _____: 82:30:00 पूर्व
स्थानिक संस्कार _____: -00:06:24 घंटे
ग्रीष्म संस्कार _____: 00:00:00 घंटे
स्थानिक समय _____: 17:48:36 घंटे
वेलान्तर _____: -00:03:30 घंटे
साम्पातिक काल _____: 06:33:36 घंटे
सूर्योदय _____: 05:56:15 घंटे
सूर्यास्त _____: 18:24:01 घंटे
दिनमान _____: 12:27:46 घंटे
सूर्य स्थिति(अयन) _____: उत्तरायण
सूर्य स्थिति(गोल) _____: उत्तर
ऋतु _____: वसन्त
सूर्य के अंश _____: 19:08:00 मीन
लग्न के अंश _____: 13:28:33 कन्या

अवकहड़ा चक्र

लग्न-लग्नाधिपति _____: कन्या - बुध
राशि-स्वामी _____: कर्क - चन्द्र
नक्षत्र-चरण _____: आश्लेषा - 2
नक्षत्र स्वामी _____: बुध
योग _____: धृति
करण _____: वणिज
गण _____: राक्षस
योनि _____: मार्जार
नाड़ी _____: अन्त्य
वर्ण _____: विप्र
वश्य _____: जलचर
वर्ग _____: श्वान
युँजा _____: मध्य
हंसक _____: जल
जन्म नामाक्षर _____: डू-डूंगरमल
पाया(राशि-नक्षत्र) _____: स्वर्ण - रजत
सूर्य राशि(पाश्चात्य) _____: मेष

पंचांग

दादा का नाम _____ :
पिता का नाम _____ :
माता का नाम _____ :
जाति _____ :
गोत्र _____ :

कैलेंडर	वर्ष	मास	तिथि/प्रविष्टे
राष्ट्रीय	शक : 1934	चैत्र	13
पंजाबी	संवत : 2068	चैत्र	20
बंगाली	सन् : 1418	चैत्र	19
तमिल	संवत : 2068	पंगुनी	20
केरल	कोल्लम : 1187	मीनम	20
नेपाली	संवत : 2068	चैत्र	20
चैत्रादि	संवत : 2069	चैत्र	शुक्ल 10
कार्तिकादि	संवत : 2069	चैत्र	शुक्ल 10

पंचांग


सूर्योदय कालीन तिथि _____ : 10
तिथि समाप्ति काल _____ : 13:41:25
जन्म तिथि _____ : 11
सूर्योदय कालीन नक्षत्र _____ : पुष्य
नक्षत्र समाप्ति काल _____ : 09:35:04 घंटे
जन्म योग _____ : आश्लेषा
सूर्योदय कालीन योग _____ : सुकर्मा
योग समाप्ति काल _____ : 06:01:20 घंटे
जन्म योग _____ : धृति
सूर्योदय कालीन करण _____ : गर
करण समाप्ति काल _____ : 13:41:25 घंटे
जन्म करण _____ : वणिज
भयात _____ : 20:49:51
भभोग _____ : 58:49:11
भोग्य दशा काल _____ : बुध 11 वर्ष 0 मा 17 दि

घात चक्र


मास _____ : पौष
तिथि _____ : 2-7-12
दिन _____ : बुधवार
नक्षत्र _____ : अनुराधा
योग _____ : व्याघात
करण _____ : नाग
प्रहर _____ : 1
वर्ग _____ : मेष
लग्न _____ : तुला
सूर्य _____ : सिंह
चन्द्र _____ : सिंह
मंगल _____ : कन्या
बुध _____ : मिथुन
गुरु _____ : तुला
शुक्र _____ : वृश्चिक
शनि _____ : कर्क
राहु _____ : धनु

जन्म कुण्डली

लग्न कुण्डली



चन्द्र कुण्डली



लग्न कुण्डली और दशा

लग्न कुण्डली

सू	गु	के शु	
बु			चं
			मं
	रा	श	ल

लग्न कुण्डली

के शु	गु	सू	
			बु
चं			
मं	ल	श	रा

विंशोत्तरी
बुध 11वर्ष 0मा 17दि
बुध

02/04/2012

21/04/2126

बुध	21/04/2023
केतु	20/04/2030
शुक्र	20/04/2050
सूर्य	20/04/2056
चन्द्र	20/04/2066
मंगल	20/04/2073
राहु	21/04/2091
गुरु	22/04/2107
शनि	21/04/2126

योगिनी

भामरी 2वर्ष 7मा 5दि

सिद्धा

07/11/2025

07/11/2032

सिद्धा	20/03/2027
संकटा	08/10/2028
मंगला	18/12/2028
पिंगला	09/05/2029
धान्या	08/12/2029
भामरी	18/09/2030
भद्रिका	08/09/2031
उल्का	07/11/2032


ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति

ग्रह	व	अ राशि	अंश	गति	नक्षत्र	पद	नं.	रा	न	अं.	स्थिति
लग्न		कन्या	13:28:33	322:11:24	हस्त	2	13	बुध	चंद्र	राहु	---
सूर्य		मीन	19:08:00	00:59:09	रेवती	1	27	गुरु	बुध	केतु	मित्र राशि
चंद्र		कर्क	21:20:06	13:31:50	आश्लेषा	2	9	चंद्र	बुध	शुक्र	स्वराशि
मंगल	व	सिंह	10:30:28	00:08:57	मघा	4	10	सूर्य	केतु	शनि	मित्र राशि
बुध	व	कुंभ	29:59:05	00:10:42	पू०भाद्रपद	3	25	शनि	गुरु	चंद्र	सम राशि
गुरु		मेष	19:36:55	00:13:17	भरणी	2	2	मंगल	शुक्र	राहु	मित्र राशि
शुक्र		वृष	04:55:36	00:56:04	कृतिका	3	3	शुक्र	सूर्य	शनि	स्वराशि
शनि	व	तुला	03:08:57	00:04:24	चित्रा	3	14	शुक्र	मंगल	शुक्र	उच्च राशि
राहु	व	वृश्चि	12:33:09	00:05:01	अनुराधा	3	17	मंगल	शनि	मंगल	शत्रु राशि
केतु	व	वृष	12:33:09	00:05:01	रोहिणी	1	4	शुक्र	चंद्र	राहु	सम राशि
हर्ष		मीन	10:58:43	00:03:24	उ०भाद्रपद	3	26	गुरु	शनि	सूर्य	---
नेप		कुंभ	08:05:05	00:01:50	शतभिषा	1	24	शनि	राहु	राहु	---
प्लूटो		धनु	15:30:47	00:00:15	पूर्वाषाढा	1	20	गुरु	शुक्र	शुक्र	---
दशम भाव		मिथु	13:41:11	--	आर्द्रा	--	6	बुध	राहु	बुध	--


व - वकी स - स्थिर
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त
राहु : स्पष्ट

चित्रपक्षीय अयनांश : 24:01:57


लग्न-चलित



चन्द्र कुंडली



नवमांश कुंडली



चलित तथा निरयण भाव चलित

चलित अंश

भाव	भाव संधि	भाव मध्य
1	सिंह 28:30:39	कन्या 13:28:33
2	कन्या 28:30:39	तुला 13:32:45
3	तुला 28:34:52	वृश्चिक 13:36:58
4	वृश्चिक 28:39:05	धनु 13:41:11
5	धनु 28:39:05	मकर 13:36:58
6	मकर 28:34:52	कुम्भ 13:32:45
7	कुम्भ 28:30:39	मीन 13:28:33
8	मीन 28:30:39	मेष 13:32:45
9	मेष 28:34:52	वृष 13:36:58
10	वृष 28:39:05	मिथुन 13:41:11
11	मिथुन 28:39:05	कर्क 13:36:58
12	कर्क 28:34:52	सिंह 13:32:45


निरयण भाव चलित

भाव	राशि	अंश
1	कन्या	13:28:33
2	तुला	12:01:16
3	वृश्चिक	12:25:20
4	धनु	13:41:11
5	मकर	15:05:11
6	कुम्भ	15:31:18
7	मीन	13:28:33
8	मेष	12:01:16
9	वृष	12:25:20
10	मिथुन	13:41:11
11	कर्क	15:05:11
12	सिंह	15:31:18


तारा चक्र

जन्म	सम्पत्	विपत्	क्षेम	प्रत्यारि	साधक	वध	मित्र	अतिमित्र
आश्लेषा	मघा	पू०फाल्गुनी	उ०फाल्गुनी	हस्त	चित्रा	स्वाति	विशाखा	अनुराधा
ज्येष्ठा	मूल	पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा	श्रवण	धनिष्ठा	शतभिषा	पू०भाद्रपद	उ०भाद्रपद
रेवती	अश्विनी	भरणी	कृतिका	रोहिणी	मृगशिरा	आर्द्रा	पुनर्वसु	पुष्य

चलित कुंडली



भाव कुंडली



विंशोत्तरी दशा

भोग्य दशा काल : बुध 11 वर्ष 0 मास 17 दिन

बुध 17 वर्ष	केतु 7 वर्ष	शुक्र 20 वर्ष	सूर्य 6 वर्ष	चंद्र 10 वर्ष
02/04/2012	21/04/2023	20/04/2030	20/04/2050	20/04/2056
21/04/2023	20/04/2030	20/04/2050	20/04/2056	20/04/2066
00/00/0000	केतु 17/09/2023	शुक्र 20/08/2033	सूर्य 08/08/2050	चंद्र 18/02/2057
02/04/2012	शुक्र 16/11/2024	सूर्य 20/08/2034	चंद्र 06/02/2051	मंगल 19/09/2057
शुक्र 14/07/2012	सूर्य 24/03/2025	चंद्र 20/04/2036	मंगल 14/06/2051	राहु 21/03/2059
सूर्य 20/05/2013	चंद्र 23/10/2025	मंगल 20/06/2037	राहु 08/05/2052	गुरु 20/07/2060
चंद्र 20/10/2014	मंगल 21/03/2026	राहु 20/06/2040	गुरु 24/02/2053	शनि 18/02/2062
मंगल 17/10/2015	राहु 08/04/2027	गुरु 19/02/2043	शनि 06/02/2054	बुध 21/07/2063
राहु 05/05/2018	गुरु 14/03/2028	शनि 20/04/2046	बुध 14/12/2054	केतु 19/02/2064
गुरु 10/08/2020	शनि 23/04/2029	बुध 18/02/2049	केतु 21/04/2055	शुक्र 20/10/2065
शनि 21/04/2023	बुध 20/04/2030	केतु 20/04/2050	शुक्र 20/04/2056	सूर्य 20/04/2066

मंगल 7 वर्ष	राहु 18 वर्ष	गुरु 16 वर्ष	शनि 19 वर्ष	बुध 17 वर्ष
20/04/2066	20/04/2073	21/04/2091	22/04/2107	21/04/2126
20/04/2073	21/04/2091	22/04/2107	21/04/2126	00/00/0000
मंगल 16/09/2066	राहु 01/01/2076	गुरु 08/06/2093	शनि 24/04/2110	बुध 17/09/2128
राहु 05/10/2067	गुरु 27/05/2078	शनि 20/12/2095	बुध 01/01/2113	केतु 14/09/2129
गुरु 10/09/2068	शनि 02/04/2081	बुध 27/03/2098	केतु 10/02/2114	शुक्र 03/04/2132
शनि 20/10/2069	बुध 20/10/2083	केतु 03/03/2099	शुक्र 12/04/2117	00/00/0000
बुध 17/10/2070	केतु 07/11/2084	शुक्र 02/11/2101	सूर्य 25/03/2118	00/00/0000
केतु 15/03/2071	शुक्र 07/11/2087	सूर्य 21/08/2102	चंद्र 24/10/2119	00/00/0000
शुक्र 14/05/2072	सूर्य 01/10/2088	चंद्र 21/12/2103	मंगल 02/12/2120	00/00/0000
सूर्य 19/09/2072	चंद्र 02/04/2090	मंगल 26/11/2104	राहु 09/10/2123	00/00/0000
चंद्र 20/04/2073	मंगल 21/04/2091	राहु 22/04/2107	गुरु 21/04/2126	00/00/0000

- ❖ उपरोक्त दशा चंद्रमा के अंशो के आधार पर दी गई है। भयात भभोग के आधार पर दशा का भोग्यकाल बुध 10 वर्ष 11 मा 23 दि होता है।
- ❖ उपरोक्त तिथियां दशा के समाप्त होने का समय दर्शाती हैं। विंशोत्तरी दशा पूरे 120 वर्ष की बिना आयुनिर्णय के दी गई हैं।

विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

केतु - राहु	केतु - गुरु	केतु - शनि	केतु - बुध	शुक्र - शुक्र
21/03/2026	08/04/2027	14/03/2028	23/04/2029	20/04/2030
08/04/2027	14/03/2028	23/04/2029	20/04/2030	20/08/2033
राहु 17/05/2026	गुरु 24/05/2027	शनि 17/05/2028	बुध 13/06/2029	शुक्र 09/11/2030
गुरु 07/07/2026	शनि 17/07/2027	बुध 14/07/2028	केतु 04/07/2029	सूर्य 09/01/2031
शनि 06/09/2026	बुध 03/09/2027	केतु 06/08/2028	शुक्र 03/09/2029	चंद्र 21/04/2031
बुध 31/10/2026	केतु 23/09/2027	शुक्र 13/10/2028	सूर्य 21/09/2029	मंगल 01/07/2031
केतु 22/11/2026	शुक्र 19/11/2027	सूर्य 02/11/2028	चंद्र 21/10/2029	राहु 30/12/2031
शुक्र 25/01/2027	सूर्य 06/12/2027	चंद्र 06/12/2028	मंगल 11/11/2029	गुरु 09/06/2032
सूर्य 13/02/2027	चंद्र 03/01/2028	मंगल 29/12/2028	राहु 05/01/2030	शनि 19/12/2032
चंद्र 17/03/2027	मंगल 23/01/2028	राहु 28/02/2029	गुरु 22/02/2030	बुध 10/06/2033
मंगल 08/04/2027	राहु 14/03/2028	गुरु 23/04/2029	शनि 20/04/2030	केतु 20/08/2033
शुक्र - सूर्य	शुक्र - चंद्र	शुक्र - मंगल	शुक्र - राहु	शुक्र - गुरु
20/08/2033	20/08/2034	20/04/2036	20/06/2037	20/06/2040
20/08/2034	20/04/2036	20/06/2037	20/06/2040	19/02/2043
सूर्य 07/09/2033	चंद्र 10/10/2034	मंगल 15/05/2036	राहु 01/12/2037	गुरु 27/10/2040
चंद्र 07/10/2033	मंगल 14/11/2034	राहु 18/07/2036	गुरु 26/04/2038	शनि 31/03/2041
मंगल 29/10/2033	राहु 14/02/2035	गुरु 12/09/2036	शनि 17/10/2038	बुध 16/08/2041
राहु 23/12/2033	गुरु 06/05/2035	शनि 19/11/2036	बुध 21/03/2039	केतु 12/10/2041
गुरु 09/02/2034	शनि 10/08/2035	बुध 18/01/2037	केतु 24/05/2039	शुक्र 23/03/2042
शनि 08/04/2034	बुध 04/11/2035	केतु 12/02/2037	शुक्र 23/11/2039	सूर्य 11/05/2042
बुध 30/05/2034	केतु 10/12/2035	शुक्र 24/04/2037	सूर्य 16/01/2040	चंद्र 31/07/2042
केतु 20/06/2034	शुक्र 20/03/2036	सूर्य 15/05/2037	चंद्र 17/04/2040	मंगल 26/09/2042
शुक्र 20/08/2034	सूर्य 20/04/2036	चंद्र 20/06/2037	मंगल 20/06/2040	राहु 19/02/2043
शुक्र - शनि	शुक्र - बुध	शुक्र - केतु	सूर्य - सूर्य	सूर्य - चंद्र
19/02/2043	20/04/2046	18/02/2049	20/04/2050	08/08/2050
20/04/2046	18/02/2049	20/04/2050	08/08/2050	06/02/2051
शनि 21/08/2043	बुध 14/09/2046	केतु 15/03/2049	सूर्य 26/04/2050	चंद्र 23/08/2050
बुध 01/02/2044	केतु 13/11/2046	शुक्र 25/05/2049	चंद्र 05/05/2050	मंगल 03/09/2050
केतु 08/04/2044	शुक्र 05/05/2047	सूर्य 15/06/2049	मंगल 11/05/2050	राहु 30/09/2050
शुक्र 18/10/2044	सूर्य 25/06/2047	चंद्र 21/07/2049	राहु 28/05/2050	गुरु 24/10/2050
सूर्य 15/12/2044	चंद्र 20/09/2047	मंगल 15/08/2049	गुरु 11/06/2050	शनि 22/11/2050
चंद्र 21/03/2045	मंगल 19/11/2047	राहु 18/10/2049	शनि 29/06/2050	बुध 18/12/2050
मंगल 28/05/2045	राहु 22/04/2048	गुरु 13/12/2049	बुध 14/07/2050	केतु 29/12/2050
राहु 17/11/2045	गुरु 07/09/2048	शनि 19/02/2050	केतु 21/07/2050	शुक्र 28/01/2051
गुरु 20/04/2046	शनि 18/02/2049	बुध 20/04/2050	शुक्र 08/08/2050	सूर्य 06/02/2051

शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांक से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलग्न लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अन्न, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।


मूलांक	2
भाग्यांक	2
मित्र अंक	2, 7, 8
शत्रु अंक	4, 5, 6
शुभ वर्ष	20,29,38,47,56
शुभ दिन	बुध, शुक्र
शुभ ग्रह	बुध, शुक्र
मित्र राशि	मीन, मेष
मित्र लग्न	धनु, वृष, कर्क
अनुकूल देवता	शिव
शुभ रत्न	पन्ना
शुभ उपरत्न	संगपन्ना, मरगज
भाग्य रत्न	हीरा
शुभ धातु	कांसा
शुभ रंग	हरित
शुभ दिशा	उत्तर
शुभ समय	सूर्योदय के बाद
दान पदार्थ	हाथी दाँत, कपूर, फल
दान अन्न	मूँग
दान द्रव्य	घी

रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

रत्न	ग्रह	शुभता	क्षेत्र
हीरा	शुक्र	100%	भाग्योदय, धन
पन्ना	बुध	84%	शत्रु व रोग मुक्ति, व्यावसायिक उन्नति, स्वास्थ्य
लहसुनिया	केतु	84%	भाग्योदय
नीलम	शनि	75%	धन, सन्तति सुख, शत्रु व रोग मुक्ति
मोती	चंद्र	67%	धनार्जन
गोमेद	राहु	22%	पराक्रम हानि, व्यय
माणिक्य	सूर्य	9%	दाम्पत्य कष्ट, व्यय
पुखराज	गुरु	9%	दुर्घटना, ग्रह कलेश, दाम्पत्य कष्ट
मूंगा	मंगल	0%	व्यय, दुर्घटना, पराक्रम हानि



दशानुसार रत्न विचार

दशा	समाप्ति	माणिक्य	मोती	मूंगा	पन्ना	पुखराज	हीरा	नीलम	गोमेद	लहसुनिया
बुध	21/04/2023	22%	54%	0%	97%	9%	100%	75%	22%	84%
केतु	20/04/2030	0%	54%	0%	84%	9%	100%	62%	0%	97%
शुक्र	20/04/2050	0%	54%	0%	91%	9%	100%	81%	34%	91%
सूर्य	20/04/2056	34%	73%	0%	84%	22%	93%	62%	0%	72%
चंद्र	20/04/2066	22%	79%	0%	91%	9%	100%	75%	0%	72%
मंगल	20/04/2073	22%	73%	0%	72%	22%	100%	75%	0%	91%
राहु	21/04/2091	0%	54%	0%	84%	9%	100%	81%	47%	72%
गुरु	22/04/2107	22%	73%	0%	72%	34%	93%	75%	22%	84%
शनि	21/04/2126	0%	54%	0%	91%	9%	100%	88%	34%	72%

साढ़ेसाती विचार

चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब गोचरवश शनि की स्थिति द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में होती है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की चंद्रमा से चतुर्थ एवं अष्टम भाव में स्थिति होने पर ढैया शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देता है। लेकिन कई बार यह आश्चर्यजनक उन्नति भी प्रदान करती है। साढ़ेसाती का प्रभाव सात वर्ष एवं ढैया का प्रभाव ढाई वर्ष रहता है।

सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है। प्रथम बचपन में द्वितीय युवावस्था में तथा तृतीय वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़ेसाती का प्रभाव शिक्षा एवं माता-पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़ेसाती का प्रभाव कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पड़ता है परंतु तृतीय साढ़ेसाती स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है।

निम्नलिखित तालिका में साढ़ेसाती का समय तथा प्रत्येक ढैया का शुभाशुभ फल इंगित किया गया है।

प्रथम चक्र:

चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	02/04/2012-16/05/2012 04/08/2012-02/11/2014	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	29/04/2022-12/07/2022 17/01/2023-29/03/2025	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	31/05/2032-13/07/2034	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	13/07/2034-27/08/2036	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	27/08/2036-22/10/2038 05/04/2039-13/07/2039	-----

द्वितीय चक्र:

चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	28/01/2041-06/02/2041 26/09/2041-11/12/2043 23/06/2044-30/08/2044	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	25/02/2052-14/05/2054 02/09/2054-05/02/2055	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	11/07/2061-13/02/2062 07/03/2062-24/08/2063 06/02/2064-09/05/2064	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	24/08/2063-06/02/2064 09/05/2064-13/10/2065 03/02/2066-03/07/2066	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	13/10/2065-03/02/2066 03/07/2066-30/08/2068	-----

तृतीय चक्र:

चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	04/11/2070-05/02/2073 31/03/2073-23/10/2073	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	12/04/2081-03/08/2081 07/01/2082-20/03/2084	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	19/09/2090-25/10/2090 21/05/2091-02/07/2093	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	02/07/2093-18/08/2095	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	18/08/2095-11/10/2097 02/05/2098-20/06/2098	-----

शनि का ढैया फल

ढैया के प्रकार	फल	क्षेत्र
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	शुभ	धन
अष्टम स्थानस्थ ढैया	शुभ	शत्रु व रोग मुक्ति
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	शुभ	व्यावसाय
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	सम	अल्प बचत
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	अशुभ	व्यय

साढ़ेसाती के उपाय

शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिये दान, पूजन, व्रत, मंत्र आदि उपाय किये जा सकते हैं। इसके लिये शनिवार को काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, चर्म-पादुका, काला कपड़ा, मोटा अनाज, तिल तथा लोहे का दान करना चाहिये। शनिदेव की पूजा एवं शनिवार का व्रत रखना चाहिये। उपवास के दिन उड़द की दाल से बनी वस्तु, चने, बेसन, काले तिल, काला नमक तथा फलों का ही सेवन करना चाहिये। साथ ही स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा शनि के निम्न मंत्र के 19000 जप संपन्न करवाने चाहिये।

ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ।।

शनि की साढ़ेसाती में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक शांति एवं समृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिये निम्नलिखित महामृत्युंजय मंत्र के 125000 जप स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा करवाने चाहिये।

**ॐ त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।**

वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित मंत्र के प्रतिदिन 108 जप किये जा सकते हैं।

ॐ हों जूं सः ॐ भूर्भुव स्वः ॐ ।।

शनि की साढ़ेसाती के शुभत्व को बढ़ाने के लिये शनिवार के दिन आप 5 1/4 रत्ती का नीलम रत्न पंचधातु में (सोना, चांदी, तांबा, लोखंड, जस्ता) या घोड़े की नाल या नाव की कील से निर्मित लोहे की अंगूठी धारण करें। लोहे की अंगूठी आप दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें।

अंगूठी शुक्ल पक्ष की शनिवार की सायं सूर्यास्त के समय धारण करें। पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अति शुभ हैं। उस दिन शनिवार का उपवास भी करना चाहिए। अंगूठी धारण करने से पूर्व इसे शुद्ध दूध एवं गंगाजल में स्नान कराना चाहिए तथा धूप आदि जलाकर शनि का पूजन करना चाहिए एवं निम्न मंत्र की एक माला या 108 बार जप करना चाहिए। नीलम मध्यमा उंगली में या गले में पेन्डेंट बनाकर धारण करें।

ॐ शं शनैश्चराय नमः ।

अंगूठी धारण करने के पश्चात शनि की वस्तुओं का दान देना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आयेगी तथा आपकी सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होगी।

श्री हनुमान चालीसा एवं श्री हनुमान अष्टक का पाठ करना श्रेष्ठ है।

मांगलिक विचार

जब वर या कन्या की कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष कहलाता है। यथोक्तम्

**लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे ।
स्त्री भर्तुर्विनाशं च भर्ता च स्त्री विनाशनम् ।**

मांगलिक दोष लग्न से अधिक प्रबल माना जाता है लेकिन चन्द्रमा से इसका दोष लग्न की अपेक्षा अल्प होता है। यदि शास्त्रानुसार वर एवं कन्या का मांगलिक दोष भंग हो जाता है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता है। इसके विपरीत बिना दोष भंग हुए मांगलिक वर-कन्याओं को जीवन में कई प्रकार की अनावश्यक समस्याओं तथा व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। अतः विवाह से पूर्व शुद्ध कुण्डली मिलान से इस दोष का उचित निवारण करके ही दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करना चाहिए जिससे जीवन में शान्ति तथा सम्पन्नता बनी रहे।

आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति लग्न से द्वादश भाव में है। अतः आप एक मांगलिक पुरुष है। क्योंकि आपकी कुंडली में यह दोष किसी भी प्रकार से भंग नहीं हो रहा है। अतः इसके प्रभाव से आपकी प्रवृत्ति व्ययशील रहेगी तथा शुभाशुभ कार्यों पर आपका व्यय होता रहेगा जिससे यदा कदा अल्प मात्रा में आर्थिक परेशानी हो सकती है लेकिन यह स्थिति अल्पकालिक रहेगी। सामान्यतया आप आर्थिक रूप से सम्पन्न ही रहेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। यदा कदा मानसिक परेशानी उत्पन्न हो सकती है साथ ही सांसारिक महत्व के शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में व्यवधान भी आएंगे परन्तु आप उनका सामना तथा समाधान करने में समर्थ रहेंगे। आपकी पत्नी का स्वास्थ्य भी मध्यम रहेगा तथा स्वभाव में उग्रता भी रहेगी जिससे परस्पर संबंधों में मतभेद हो सकते हैं लेकिन इसका कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं होगा। इसके अतिरिक्त सांसारिक सुखों का उपभोग करने में भी आपको किंचित व्यवधानों के साथ न्यूनाधिक सफलता प्राप्त होती रहेगी।

मंगल के इस प्रभाव से आपके विवाह में भी किंचित विलम्ब हो सकता है लेकिन इस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। साथ ही विवाह पूर्व की किसी वार्ता में गतिरोध भी हो सकता है लेकिन विवाह के बाद आपके परस्पर संबंध समान रूप से अनुकूल रहेंगे तथा दाम्पत्य जीवन का उपभोग करने में आप समर्थ होंगे।

जन्म कुंडली में मंगल की द्वादश स्थिति के प्रभाव से आपकी प्रवृत्ति व्ययशील रहेगी परन्तु धनार्जन भी आवश्यक मात्रा में होता रहेगा जिससे इसका दुष्प्रभाव नहीं होगा साथ ही सांसारिक कार्यों में उत्पन्न व्यवधानों का सामना तथा समाधान करने में भी आप समर्थ रहेंगे। तृतीय भाव पर मंगल की दृष्टि के प्रभाव से भाई बहनों का सुख एवं सहयोग मध्यम रहेगा परन्तु पराक्रम में वृद्धि होगी तथा आत्मबल से आप युक्त रहेंगे जिससे कार्य क्षेत्र में आप

उन्नतिशील रहेंगे। षष्ठ भाव पर मंगल की दृष्टि के प्रभाव से शत्रु पक्ष को पराजित करने में आप समर्थ रहेंगे। यदा कदा पित या गर्मी से आपको शारीरिक परेशानी की अल्प मात्रा में अनुभूति हो सकती है सप्तम भाव पर इसकी दृष्टि के प्रभाव से पत्नी का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा साथ ही स्वभाव में उग्रता भी रहेगी लेकिन आपसी सामंजस्य के द्वारा दाम्पत्य जीवन की मधुरता बनाए रखने में आप समर्थ रहेंगे।

इस प्रकार अपने दाम्पत्य जीवन को अधिक सुखी एवं आनन्दमय बनाने के लिए आपको किसी मांगलिक कन्या से विवाह करना चाहिए जिससे आपका मांगलिक दोष खत्म हो जाए। इसके लिए कन्या की कुंडली में मांगलिक स्थानों अर्थात् प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश भाव में शनि या राहु जैसे पापग्रहों की स्थिति होनी चाहिए। ऐसा होने पर आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी तथा धनऐश्वर्य से युक्त होकर आप प्रसन्नता पूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करेंगे तथा एक दूसरे को पूर्ण सुख एवं सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर रहेंगे।



कालसर्प योग

अग्रे राहुरधः केतुः सर्वे मध्यगताः ग्रहाः ।
योगाऽयं कालसर्पाख्यो शीघ्रं तं तु विनाशय ॥

आगे राहु हो एवं नीचे केतु मध्य में सभी (सातों) ग्रह विद्यमान हो तो कालसर्प योग बनता है। द्वादश भावों में राहु की स्थिति के अनुसार काल सर्प योग मुख्यतः द्वादश प्रकार के होते हैं। वे हैं-

1. अनंत, 2. कुलिक, 3. वासुकि, 4 शङ्खपाल, 5. पद्म, 6. महापद्म, 7. तक्षक, 8. कर्कोटक, 9. शङ्खचूड, 10. घातक, 11. विषधर, 12. शेषनाग ।

यह योग उदित अनुदित भेद से दो प्रकार के होते हैं राहु के मुख में सभी सातों ग्रह ग्रसित हो जाएं तो उदित गोलाब्ध नामक योग बनता है एवं राहु की पृष्ठ में यदि सभी ग्रह हों तो अनुदितन गोलाब्ध नामक योग बनता है।

इस योग में उत्पन्न जातक को मानसिक अशांति, धनप्राप्ति में बाधा, संतान अवरोध एवं गृहस्थी में प्रतिपल कलह के रूप में प्रकट होता है। प्रायः जातक को बुरे स्वप्न आते हैं। कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका मन में बनी रहती है। जातक को अपनी क्षमता एवं कार्यकुशलता का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य अक्सर देर से सफल होते हैं। अचानक नुकसान एवं प्रतिष्ठा की क्षति इस योग के लक्षण हैं।

जातक के शरीर में वात पित्त त्रिदोषजन्य असाध्य रोग अकारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग जो प्रतिदिन क्लेश (पीडा) देते हैं तथा औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हों, काल सर्प योग के कारण होते हैं। काल सर्प योग के उपाय इन कष्टों से राहत के लिये आवश्यक हो जाते हैं।

जातक पर काल सर्प योग का प्रभाव

आपकी जन्मपत्रिका में काल सर्प योग विद्यमान नहीं है। अतः आपको इस योग के लिए शांति आदि की आवश्यकता नहीं है एवं आप पूर्ण रूप से सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

पितृदोष विचार

पितृदोष क्या है ?

हमारे पूर्वज या परिवार के सदस्य मृत्योपरान्त पितृ संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और भगवान के बीच की कड़ी होते हैं। यदि ये प्रसन्न होते हैं तो जातक सुखी जीवन भोगता है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये अप्रसन्न हो जाते हैं तो जातक को अनेक प्रकार की व्याधियाँ व कष्ट झेलने पड़ते हैं।

कालांतर में पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म ले लेते हैं। यदि परिवार के सभी पितरों का पुनर्जन्म या मोक्ष हो गया हो तो कुछ समय के लिए उस परिवार के कोई पितृ नहीं होते। ऐसे में जातक सुख दुख अपनी कुंडली अनुसार प्राप्त करता है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि जब तक वे पितृ लोक में हैं तब तक तर्पणादि से उनकी सेवा करें। यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप जातक चहुमुखी प्रगति प्राप्त करता है।

पितृ अप्रसन्न, दुःखी एवं अतृप्त होते हैं यदि किसी पूर्वज की अंतिम इच्छा पूर्ण न हुई हो, या किसी के द्वारा श्रापित हों या असामयिक मृत्यु हो गई हो। पितृ योनि में रहते हुए भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यदि परिवार के सदस्य तर्पणादि द्वारा भोजन नहीं देते हैं तो वे भूख से व्याकुल हो जाते हैं। पितृ विभिन्न प्रकार के कष्टों की अनुभूति करते हैं जब तक कि जातक पितरों की शांति हेतु पूजन-पाठ, पिंडदान, तर्पण आदि न करे।

पितृ दोष अपने कर्मों के कारण न हो करके, अपने माता-पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं, क्योंकि यह दोष तो जातक के जन्म से जन्मपत्री में विद्यमान होता है जबकि कर्म तो जन्म के बाद ही बनते हैं। अतः पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, केवल लक्षण दर्शित होते हैं। जन्मपत्री में भी शुभ दशा व गोचर के योग होते हुए भी हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता, या घर में सदैव कलह, अशांति, धन की कमी व बीमारी लगी रहती है। संतान नहीं होती या संतान विक्षिप्त होती है, बच्चों के विवाह में अड़चन आती है या उनके विकास में अवरोध आते हैं। अतः जब भी किसी प्रकार की समस्या बार-बार आती है एवं कोई कारण नजर न आता हो तो हमें पितृ दोष की शांति करवानी चाहिए जब तक कि वातावरण और परिस्थितियां अनुकूल न हो जाएं।

पितृदोष लक्षण

1. परिवार में आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होना।
2. आनुवांशिक बीमारी होना और लंबी अवधि तक बीमारी का चलना।
3. परिवार में शारीरिक रूप से विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना।
4. परिवार में बच्चों द्वारा असम्मान या प्रताड़ना का व्यवहार करना।
5. गर्भ धारण न होना या गर्भपात होना।
6. परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना।

7. परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा-फसाद होना।
8. कभी खत्म न होने वाली गरीबी परिवार में हो जाना।
9. बुरी आदतों की लत लग जाना।
10. परिवार में बार-बार केवल कन्या संतान का जन्म होना।
11. शिक्षा में बाधाएं आना।
12. स्वप्न में सांप दिखाई देना।
13. माथे पर गंदी करतूतों का कलंक लगना।
14. परिवार में किसी बुजुर्ग के बाल सफेद होने के पश्चात पीले होने लगना या काली खांसी होना।
15. परिवार के किसी सदस्य को स्वप्न में पूर्वज द्वारा खाना या कपड़े मांगते हुए दिखना।

पितृ की पहचान :

1. श्रीमद् भगवद् गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करें तो आपको कुछ दिनों में ही स्वप्न में पितृ दर्शन होंगे।
2. रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर अपने मन में अपने पितृ से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृ हैं वे मुझे दर्शन दें।
3. यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है तो अपने पितृ को याद कीजिए और उन्हें कहें कि यदि आप हैं तो मेरा अमुक कार्य हो जाए। मैं आपके लिए शांति पाठ कराउंगा। आपकी ऐसी प्रार्थना से कार्य सिद्धि हो जाने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपको पितृ शांति करवानी चाहिए।

पितृ दोष उपाय :

1. श्राद्ध पक्ष में मृत्यु तिथि के दिन तर्पण व पिंडदान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं व वस्त्र/दक्षिणा आदि दें।
2. यदि मृत्युतिथि न मालूम हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन तर्पण व पिंडदानादि कर्म करें।
3. प्रत्येक अमावस्या विशेषतः सोमवती अमावस्या को पितृभोग दें। इस दिन गोबर के कंडे जलाकर उसपर खीर की आहुति दें। जल के छींटे देकर हाथ जोड़ें व पितृ को नमस्कार करें।
4. सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें व गायत्री मंत्र का जप करें।
5. पीपल के पेड़ पर जल, पुष्प, दूध, गंगाजल व काले तिल चढ़ाकर पितृ को याद करें, माफी और आशीष मांगें।
6. रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाएं।
7. लाल किताब के अनुसार परिवार में जहां तक खून का रिश्ता है जैसे दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, ताया, बहन, बेटी, बुआ, भाई सबसे बराबर-बराबर धन, 1, 5 या दस रुपए लेकर मंदिर में दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।
8. हरिवंश पुराण का श्रवण और गायत्री जप पितृ शांति के लिए लोकप्रसिद्ध है।
9. गया या त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध या नन्दी श्राद्ध करें।
10. नारायणबलि पूजा करवाएं।

11. पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाएं -

ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च ।

नमः स्वाहायै स्वधायैः नित्यमेव नमो नमः ॥

12. पितृ दोष निवारण उपायों में गया में पिंडदान, गया श्राद्ध तथा पितृ भोग अर्पण आदि क्रियाएं करते हुए उपरोक्त पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए ।

13. श्री कृष्ण मुखामृत गीता का पाठ करें ।

पितृ पूजा के लिए आवश्यक निर्देश :

1. पितरों को मांस वाला भोजन न अर्पित करें ।
2. पूजा के दिन स्वयं भी मांस भक्षण न करें ।
3. पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग न करें । मिट्टी या पत्तों के बर्तनों का ही प्रयोग करें ।
4. पितृ पूजा में घंटी न बजाएं ।
5. पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान न डालें ।
6. बुजुर्गों का सम्मान करें ।
7. पितरों के निमित्त किये जाने वाले गौ-दान से पितृ तृप्त होते हैं ।
8. घर में पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर विशेष पवित्रता रखें । यह स्थान पितृओं का स्थान माना जाता है ।
9. पितृ कर्म हेतु साल में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 वैधृति योग, 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर कुल 99 दिन होते हैं ।

आपकी कुण्डली में पितृदोष

- चन्द्र पर राहु और शनि दोनों का प्रभाव है ।
- नवम् भाव के स्वामी पर राहु का प्रभाव है ।

आपकी कुण्डली में चन्द्र और शुक्र के कारण पितृदोष है ।

आपकी कुण्डली में चंद्र पितृदोष कारक ग्रह है अतः माता के पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है । इस दोष के निवारणार्थ सोमवार को प्रतिदिन शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल चढ़ाएं साथ ही शिव पंचाक्षरी “ॐ नमः शिवाय” का मंत्र जाप करें । दुर्गा, शिव या पार्थिवेश्वर महादेव का पूजन करें । ढाक की समिधा व जड़ी-बूटियों से हवन करे तथा गौ-दान करें ।

आपकी कुण्डली में शुक्र पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी महिला पूर्वज द्वारा किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है । इस दोष के निवारणार्थ गरीब या जरूरतमंद स्त्रियों, कन्याओं को तथा पत्नी को दान दें । 11 वर्ष से छोटी 9 कन्याओं को मंदिर में खीर खिलायें ।

आपकी कुंडली में पितृदोष का योग है परंतु यदि आपको अपने जीवन में उपरोक्त वर्णित पितृदोष लक्षण में से किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी की अनुभूति नहीं हो रही है तो आपको पितृदोष संबंधी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। संभव है कि किसी शुभकार्य के कारण आपके पितृ प्रसन्न हो गए हों व आपको उनकी कृपा प्राप्त हो रही हो या वे मोक्ष को प्राप्त हो गए हों।

नोट :

त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं नारायण नाग बली पितृदोष के लिए मुख्य उपाय हैं। यह स्रयंबकेश्वर में विशेष रूप से कराये जाते हैं। त्रिपिण्डी श्राद्ध में आटे को पानी में मांड़ कर पुतले के रूप में पूर्वजों के प्रतीकात्मक पिंड बना लिये जाते हैं, उन पर मंत्रों का पाठ किया जाता है। अंत में अस्थि विसर्जन के समान उनको जल में प्रवाह कर दिया जाता है।

नारायण नागबलि, पूर्वजों के मोक्ष व उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कराया जाता है। इसमें दो दिन श्मशान क्रिया होती है व तीसरे दिन मांगलिक पूजा की जाती है। यदि पितृदोष के कारण संतान बाधा या विवाह बाधा आदि होती है तो इस उपाय के पश्चात जातक बाधामुक्त हो जाता है और काम स्वतः बनने लगते हैं।

ग्रह फल

सूर्य

सप्तम भाव में सूर्य हो तो जातक चिन्तायुक्त राज्य से अपमानित, आत्मरत, कठोर, स्वाभिमानी एवं विवाहित जीवन दुःखी होता है।

मीन राशि में रवि हो तो जातक बुद्धिमान्, यशस्वी, व्यापारी, विवेकी ज्ञानी, योगी, प्रेमी, गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाला और स्वसुर से लाभन्वित होता है।

आपके जन्म समय में सूर्य सप्तम भाव में स्थित है अतः आपके पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा एवं शारीरिक कष्ट की अनुभूति नहीं होगी। उनकी आयु भी लम्बी होगी तथा आपके प्रति उनके मन में पूर्ण वात्सल्य का भाव रहेगा। विविध प्रकार से धनार्जन करने में वे सफल रहेंगे तथा समस्त शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में आपको अपना हार्दिक सहयोग देते रहेंगे। साथ ही आपके विवाह सम्पन्न करने में उनका पूर्ण सहयोग रहेगा एवं आप उनके विश्वास पात्र भी रहेंगे।

आप भी उनका पूर्ण सम्मान करेंगे तथा उनकी आज्ञा पालन करने के लिए नित्य तत्पर रहेंगे। आपके आपसी संबंध मधुर रहेंगे परन्तु यदा कदा मतभेदों के उत्पन्न होने के कारण संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। फिर भी आप नित्य उनकी सेवा तथा वांछित सहायता एवं सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे एवं अपनी ओर से उन्हें किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं होने देंगे।

चन्द्र

ग्यारहवें भाव में चन्द्रमा हो तो जातक गुणी, चंचलबुद्धि, सन्तति और सम्पत्ति से युक्त, सुखी, यशस्वी, लोकप्रिय, दीर्घायु, मन्त्रज्ञ, परदेशप्रिय एवं राज्यकार्यदक्ष होता है।

कर्क राशि में चन्द्रमा हो तो जातक सम्पत्तिवान्, श्रेष्ठबुद्धि, जलविहारी, सन्ततिवान्, कामी, कृतज्ञ, ज्योतिषी, उन्माद रोगी, स्त्रियों के प्रभाव में आ जाने वाला, चंचलमन, अच्छा स्वभाव वाला, सुन्दर, दयालु, आवेशात्मक एवं विदेश यात्रा की ओर रुचि वाला होता है।

आपके जन्म समय में चन्द्रमा की स्थिति एकादश भाव में है। अतः माता के आप सदैव प्रिय रहेंगे एवं आपके प्रति उनके मन में पूर्ण वात्सल्य तथा स्नेह का भाव विद्यमान रहेंगे। जीवन में आपकी उन्नति एवं समृद्धि के लिए सदैव आपको अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करती रहेंगी। साथ ही उन्हीं के सहयोग से आप अपने आय साधनों की वृद्धि करने में सफल हो सकेंगे। इस प्रकार जीवन के समस्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपको माता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही मातृपक्ष से भी आपको नित्य धन लाभ होता रहेगा।

आपके मन में भी उनके प्रति हार्दिक श्रद्धा का भाव रहेगा तथा उनकी आज्ञा पालन करना एवं उनकी सेवा करना आप अपना प्रिय कर्तव्य समझेंगे। आपके परस्पर संबंध अत्यन्त ही स्नेहपूर्ण रहेंगे एवं उनमें मतभेदों का प्रायः अभाव ही रहेगा। इस प्रकार आप परस्पर एक

दूसरे के लिए शुभ रहेंगे।

मंगल

बारहवें भाव में मंगल हो तो जातक नेत्ररोगी, स्त्रीनाशक, ऋणी, झगड़ालू, मूर्ख, व्ययशील एवं नीच प्रकृति का पापी होता है।

सिंह राशि में मंगल हो तो जातक शूरवीर, सदाचारी, कार्यनिपुण, स्नेहशील, परोपकारी, ज्योतिषी, गणितज्ञ, माता-पिता का आज्ञाकारी, गुरुजनों का आदर करने वाला, उदार एवं सफल होता है।

आपके जन्म समय में मंगल की स्थिति द्वादश भाव में विद्यमान है अतः भाई बहिनों से आप सामान्य स्नेह तथा सम्मान प्राप्त करेंगे। उनका स्वास्थ्य भी मध्यम रहेगा एवं यदा कदा शारीरिक रूप से अस्वस्थता भी उनमें विद्यमान रहेगी। धन सम्पत्ति से वे प्रायः युक्त रहेंगे तथा जीवन में आपको वांछित आर्थिक तथा अन्य रूप से अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त सुख दुःख में भी आपको उनसे पूर्ण सहानुभूति तथा सहायता प्राप्त होगी।

आपके मन में भी उनके प्रति सम्मान एवं स्नेह की भावना रहेगी एवं यथाशक्ति जीवन में उनको अपनी ओर से आर्थिक या अन्य प्रकार से सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर रहेंगे परन्तु यदा कदा मतभेदों के कारण तनाव की स्थिति भी उत्पन्न होगी परन्तु कुछ समय के बाद सब कुछ स्वतः ही ठीक हो जाएगा।

बुध

षष्ठभाव में बुध हो तो जातक विवेकी, कलहप्रिय, वादी, रोगी, आलसी, अभिमानी, परिश्रमी, कामी, दुर्बल एवं स्त्रीप्रिय होता है।

कुम्भ राशि में बुध हो तो जातक कुटुम्बहीन, दुःखी, अल्पधनी, झगड़ालू, प्रसिद्ध निर्बल स्वास्थ्य एवं प्रगति करने वाला होता है।

गुरु

अष्टमभाव में गुरु हो तो जातक दीर्घायु, नम्रव्यवहार, लेखक, सुखी, शान्त, मधुरभाषी, विवेकी, ग्रन्थकार, कुलदीपक, ज्योतिषप्रेमी, मित्रों द्वारा धननाशक, गुप्तरोगी एवं लोभी होता है।

मेष राशि में गुरु हो तो जातक ऐश्वर्यशाली, तेजस्वी, वकील, वादी, प्रसिद्ध, कीर्तिमान, विजयी, उखभाव, धनी, विद्वान, प्रचुर सन्तान, उदार, नम्रभाषी परन्तु अपने आपको दूसरों से उच्च समझने वाला, सुखी विवाहित जीवन एवं उच्चपद पर आसीन होता है।

शुक्र

नवम भाव में शुक्र हो तो जातक धर्मात्मा, राजप्रिय, पवित्रतीर्थ यात्राओं का कर्ता, दयालु, प्रेमी, गृहसुखी, गुणी, चतुर एवं आस्तिक होता है।

वृष राशि में शुक्र हो तो जातक सुन्दर, ऐश्वर्यवान्, दानी, सदाचारी, सात्त्विक, परोपकारी, अनेक शास्त्रज्ञ, दृढ़, स्वतन्त्रकामुक, शौकीन तबीयत, संगीत-नृत्य तथा अन्य कलाओं में रुचि एवं आलसी होता है।

शनि

द्वितीय भाव में शनि हो तो जातक कटुभाषी, साधुद्वेषी, मुखरोगी, और कुम्भ या तुला का शनि हो तो धनी, लाभवान् एवं कुटुम्ब तथा भ्रातृवियोगी होता है।

तुला राशि में शनि हो तो जातक राजनीति में रुचि रखने वाला, प्रसिद्धनेता, धनी, सम्मानित शक्तिशाली, दानशील, परस्त्रियों में रुचि, सुभाषी, यशस्वी, स्वाभिमानी एवं उन्नतिशील होता है।

राहु

तृतीय भाव में राहु हो तो जातक योगाभ्यासी, विद्वान्, व्यवसायी, पराक्रमशून्य, दृढ़विवेकी, अरिष्टनाशक, प्रवासी, दीर्घायु एवं बलवान् होता है।

वृश्चिक राशि में राहु हो तो जातक धूर्त, निर्धन, रोगी, धननाशक, अनैतिक चरित्र एवं धोखेबाज होता है।

केतु

नवम भाव में केतु हो तो जातक सुखाभिलाषी, व्यर्थपरिश्रमी अपयशी, दुःखी एवं 48 वर्ष के बाद भाग्योदय होता है।

वृष राशि में केतु हो तो जातक दुःखी, निरुद्यमी, आलसी, वाचाल एवं कामुक होता है।

दशा विश्लेषण

महादशा :- केतु
(21/04/2023 - 20/04/2030)

केतु की महादशा 21/04/2023 को आरम्भ और 20/04/2030 को समाप्त होगी। इसकी अवधि 7 वर्ष है।

आपकी जन्मकुण्डली में केतु नवें भाव में स्थित है जहाँ से इसकी दृष्टि तृतीय भाव पर है। इसके पूर्व आपकी बुध की दशा चल रही थी जिसकी अवधि 17 वर्ष थी। बुध के कारण साझेदारों से लाभ, विवाह, यात्रा तथा जीवन में प्रगति हुई होगी। केतु की वर्तमान दशा में यात्रा, अध्यात्म में रुचि, उच्च शिक्षा और सम्पत्ति तथा समृद्धि की प्राप्ति होगी।

स्वास्थ्य :

इस दशा के दौरान आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप में आत्मविश्वास है और आप शक्ति शाली तथा स्फूर्तिवान होंगे। छूत की बीमारी, फोड़े-फुन्सी, आँख में पीड़ा, पित्त दोष, निचले अंगों में कष्ट, बुखार आदि हो सकता है। ये मौसमी होंगे। कुछ सावधानी बरत कर इनसे बचा जा सकता है।

अर्थ और व्यवसाय :

आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। आपको पिता से लाभ मिल सकता है। आपको संचार-साधन, मास मीडिया तथा सगे-संबंधियों से लाभ हो सकता है। सद्दा और निवेश लाभदायक होगा। जीविका और व्यवसाय के लिए तकनीकी तथा वैज्ञानिक सेवा, योजना और प्रशासन, कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी, दवा, सरकारी सेवा, शिक्षण आदि का चयन कर सकते हैं। रत्न, पत्थर, संगमरमर, अनाज, चमड़े, बिजली के सामान आदि का व्यापार लाभदायक हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को सम्मान और उच्च पद मिलेगा। यश, ख्याति और सम्मान की प्राप्ति होगी। व्यापार-व्यवसाय से जुड़े लोगों का शुभ परिवर्तन होगा और कार्यों में सफलता मिलेगी। आपको लक्ष्य की प्राप्ति और विरोधियों पर विजय मिलेगी। उपार्जन और लाभ भी अच्छा होगा।

वाहन, यात्रा जायदाद :

गुरु की अन्तर्दशा के दौरान आपको आराम मिलेगा। जमीन-जायदाद में वृद्धि होगी। यात्रा लाभदायक सिद्ध होगी। वाहन-सुख भी मिल सकता है। शनि की अन्तर्दशा में छोटी और शुक्र की अन्तर्दशा में बड़ी यात्रा होगी जो लाभदायक होगी।

शिक्षा :

इस दशा के दौरान आपकी शिक्षा उत्तम होगी। आप उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे और अपनी पसन्द के संस्थान में आपका नामांकन होगा। इन्जीनियरिंग, भौतिक विज्ञान, अध्यात्म तथा गुप्त विद्या, भाषा, तत्त्व-विज्ञान आदि में रुचि हो सकती है। आप साहसी तथा दृढसंकल्प हैं और अपने अध्ययन में अच्छा करेंगे।

परिवार :

परिवार के साथ आपका सम्बन्ध मधुर रहेगा। आपके बच्चे सुखी और समृद्धि शाली होंगे और आपको उनसे सुख मिलेगा। आपके जीवनसाथी से आपका सम्बन्ध उत्तम रहेगा। आपकी माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहेगा और शत्रुओं पर विजय मिलेगी जबकि पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तथा सम्पत्ति और सफलता मिलेगी। आपके छोटे भाई-बहनों की विदेश-यात्रा और व्यापार में वृद्धि होगी जबकि बड़ों की शिक्षा होगी और समृद्धि, आराम और सफलता मिलेगी।

अन्तर्दशा :

केतु की महादशा में केतु की अन्तर्दशा के दौरान आपकी यात्रा होगी तथा बच्चों से सुख, यश और ख्याति मिलेगी। शुक्र के कारण मामूली स्वास्थ्य समस्या, लाभ और ननिहाल पक्ष से लाभ मिलेगा। सूर्य की अन्तर्दशा में धन-समृद्धि की प्राप्ति, यात्रा तथा धार्मिक कार्यों में रुचि होगी। चन्द्र की अन्तर्दशा में परिवर्तन और कुछ स्वास्थ्य समस्या होगी और अचानक लाभ मिलेगा। मंगल की अन्तर्दशा के दौरान व्यय होगा और उत्तम शिक्षा तथा बच्चों से सुख मिलेगा। राहु के कारण सुख, यश और ख्याति मिलेगी तथा जमीन-जायदाद और आराम में वृद्धि होगी। शनि की अन्तर्दशा में छोटी यात्रा और कुछ बाधा होगी तथा सम्पत्ति की प्राप्ति होगी जबकि बुध की अन्तर्दशा के दौरान व्यवसाय में सफलता, विवाह, साझेदारों से लाभ, यात्रा आदि हो सकती है।

**अंतर्दशा :- केतु - मंगल
(23/10/2025 - 21/03/2026)**

आपके लिए केतु की महादशा 21/04/2023 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में मंगल अंतर्दशा की अवधि 4 मास 27 दिन रहेगी जो आपके लिए 23/10/2025 को प्रारंभ होकर 21/03/2026 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी मंगल शारीरिक शक्ति, ऊर्जा और आत्मविश्वास का कारक है।

इस अवधि में आपके जीवन में आर्थिक कठिनाइयां आ सकती हैं पर आप उनसे निबटने में सफल रहेंगे। आपकी रोगविरोधक क्षमता उत्तम रहेगी। माता पक्ष के लोगों से लाभ हो सकता है। भाइयों से उत्तम संबंध होंगे, लघु यात्राएं हो सकती हैं। सब कार्यों में साहस और उत्साह का परिचय देंगे।

आपके जीवनसाथी को शत्रुओं पर विजय मिलेगी, उनका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपके पिता अचल संपत्ति क्रय कर सकते हैं, घरेलू जीवन सुखी रहेगा, सब कार्य पूर्ण होंगे। माता भाग्यशाली रहेंगी; सफल और धनी बनेंगी। आपके छोटे भाई-बहनों को कार्यों में सफलता मिलेगी, प्रसिद्धि प्राप्त होगी। बड़े भाई-बहनों की आय पर्याप्त होगी।

आपकी संतान के जीवन में परिवर्तन हो सकते हैं, वर्तमान स्तर बनाये रखने के लिए उन्हें परिश्रम करना होगा। अगर वे कार्यरत हैं तो तबादला हो सकता है, कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं।

अगर आप सेवारत हैं तो सहकर्मियों से लाभ होगा, प्रोन्नति हो सकती है। परामर्शदाताओं को परिश्रम करना होगा। व्यापारियों को स्पर्धियों पर सफलता मिलेगी।

स्वास्थ्य का ध्यान रखना श्रेयस्कर रहेगा। कान और नेत्रों के रोगों से बचाव करें। अरिष्ट से बचाव के लिए लाल वस्त्र, मसूर की दाल दान में दें।

**अंतर्दशा :- केतु - राहु
(21/03/2026 - 08/04/2027)**

आपके लिए केतु महादशा 21/04/2023 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में राहु अंतर्दशा 1 वर्ष 18 दिन की होगी जो आपके लिए 21/03/2026 को प्रारंभ होकर 08/04/2027 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी राहु दादा, अचानक घटने वाली घटना और भौतिक सुखों का कारक है।

इस अवधि में आप लक्ष्यप्राप्ति के लिए उत्साही और दृढ़प्रतिज्ञ होंगे। आकांक्षाएं पूर्ण होंगी। आप धनी बनेंगे, कार्यों में लाभ होगा। विदेश यात्रा हो सकती है। शिक्षा में प्रसिद्धि मिलेगी। सुख-साधन उपलब्ध रहेंगे। अध्यात्म में रुचि हो सकती है। उच्चपद प्राप्त हो सकता है।

आपके जीवनसाथी प्रसिद्ध बनेंगे। आपके पिता को साझेदारी द्वारा लाभ होगा। माता के खर्च बढ़ सकते हैं। आपके भाई-बहनों के लिए सफलता, प्रसिद्धि, व्यापार की योजना

और निवेश द्वारा लाभ का संकेत है।

आपकी संतान को परीक्षा में सफलता मिलेगी। अगर वे कार्यरत हैं तो आर्थिक प्रगति के अवसर मिलेंगे, धनी बनेंगे।

अगर आप सेवारत हैं तो कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी, धनार्जन उत्तम होगा। परामर्शदाताओं की आय बढ़ेगी, शत्रुओं पर विजय होगी। व्यापारी धनी बनेंगे, आय में वृद्धि होगी।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शुभत्व में वृद्धि के लिए राहु की पूजा करें, उन्हें बेसन की रोटी का भोग लगायें, फिर उसे स्वयं खा लें एवं किसी कुत्ते को भी दें।

**अंतर्दशा :- केतु - गुरु
(08/04/2027 - 14/03/2028)**

आपके लिए केतु महादशा 21/04/2023 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में बृहस्पति अंतर्दशा की अवधि 11 मास 6 दिन होगी। आपके लिए यह 08/04/2027 को प्रारंभ होकर 14/03/2028 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी बृहस्पति ज्ञान, धन और संतान का कारक है।

इस अवधि में आपको अचानक धनागम हो सकता है। जीवनसाथी के धन से लाभ हो सकता है। विरासत में धन मिल सकता है। पराविद्या, ज्योतिष आदि में रुचि हो सकती है। आप धनी बनेंगे, पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा, सब सुख-साधन उपलब्ध रहेंगे। आपकी शिक्षा उत्तम होगी। मधुर वाणी द्वारा प्रभावशाली बनेंगे। खर्चे बढ़ सकते हैं, यात्रा हो सकती है, अध्यात्म में रुचि संभव है।

आपके जीवनसाथी की आय बढ़ेगी, वे धनी बनेंगे, सब सुख-साधन उपलब्ध रहेंगे। आपके पिता की यात्राएं हो सकती हैं। माता भाग्यशाली रहेंगी, धनागम उत्तम होगा। आपके भाई-बहनों के लिए शत्रुओं पर विजय, उत्तम स्वास्थ्य, मामा पक्ष के लोगों से लाभ, कार्यक्षेत्र में सफलता और प्रसिद्धि का संकेत है।

आपकी संतान के बहुत से मित्र होंगे, शिक्षा उत्तम होगी। अगर वे कार्यरत हैं तो अचल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं।

अगर आप सेवारत हैं तो लघु यात्राएं हो सकती हैं। परामर्शदाताओं की आय बढ़ेगी। व्यापारियों के लाभ में वृद्धि होगी।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा; मामूली व्याधि संभव है। शुभत्व में वृद्धि के लिए पीली वस्तुएं दान में दें।

अंतर्दशा :- केतु - शनि
(14/03/2028 - 23/04/2029)

आपके लिए केतु महादशा 21/04/2023 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में सातवीं अंतर्दशा शनि की होगी जिसकी अवधि 1 वर्ष 9 दिन होगी। यह अंतर्दशा 14/03/2028 को प्रारंभ होकर 23/04/2029 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी शनि भाग्य और सेवा का कारक है।

इस अवधि में आपकी आय बढ़ेगी, संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। जिंदगी आराम से कटेगी। जीवनसाथी या साझेदार के माध्यम से लाभ हो सकता है। तंत्र-मंत्र और गुप्त विद्या में रुचि हो सकती है। धनागम उत्तम होगा, धनी बन सकते हैं। भूमि और वाहन का सुख मिलेगा। प्रसिद्धि बढ़ेगी, धनागम होगा, सम्मान और पद में उन्नति होगी। इच्छाएं पूर्ण होंगी।

आपके जीवनसाथी के जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है। आपके पिता को स्पर्धियों पर सफलता मिलेगी; उन्हें अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा। माता का धनार्जन उत्तम होगा, निवेश से लाभ होगा। आपके भाई-बहनों के लिए कार्यों में बाधा, अचल संपत्ति की प्राप्ति, घर में स्थायित्व और धन का संकेत है। आपकी संतान सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त करेगी।

अगर आप सेवारत हैं तो आय बढ़ेगी, किस्मत साथ देगी। परामर्शदाता भाग्यशाली रहेंगे। व्यापारियों के कार्य में कुछ परिवर्तन आ सकते हैं।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। मुख और दांतों की व्याधियों से बचाव करना श्रेयस्कर रहेगा। अरिष्ट से बचाव के लिए शनि मंत्र का जाप करें।

ॐ शं शनैश्चराय नमः

अंतर्दशा :- केतु - बुध
(23/04/2029 - 20/04/2030)

आपके लिए केतु महादशा 21/04/2023 को प्रारंभ हुई। इस महादशा में बुध की अंतर्दशा की अवधि 11 मास 27 दिन होगी जो आपके लिए 23/04/2029 को प्रारंभ होकर 20/04/2030 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी बुध वाणी, बुद्धि, लेखन और तर्कशक्ति का कारक है।

इस अवधि में आप स्पर्धियों पर विजयी रहेंगे। प्रसिद्धि और सम्मान का संकेत है। कार्यालय में वातावरण मधुर रहेगा। कार्यों में सफलता मिलेगी। अदालत में जीत होगी। अधिकांश क्षेत्रों में वर्तमान स्थिति बनी रहेगी। शुभ कार्यों पर खर्च बढ़ सकते हैं। अध्यात्म, ध्यान और तंत्र में रुचि हो सकती है।

आपके जीवनसाथी की यात्राएं हो सकती हैं। आपके पिता कार्यक्षेत्र में सफल रहेंगे ; प्रसिद्ध बनेंगे। माता धनी बनेंगी। आपके भाई-बहनों के लिए अचल संपत्ति, बहुत से मित्र,

**महादशा :- शुक्र
(20/04/2030 - 20/04/2050)**

आपकी कुण्डली में शुक्र की महादशा 20/04/2030 को आरम्भ होकर 20/04/2050 को समाप्त होगी। इसकी अवधि 20 वर्ष है।

शुक्र नवम भाव में स्थित है। यह एक शुभ ग्रह है, और संगीत, नाटक और आनन्द का द्योतक है। यह दो राशियों वृष और तुला का स्वामी है। यह कन्या राशि में निम्न का जबकि मीन राशि में उच्च का होता है। यह विवाह का कारक भी है। नवम भाव में स्थित होकर यह आपकी जन्म कुण्डली के तृतीय भाव को देख रहा है और इस भाव पर शुभ प्रभाव डाल रहा है। भाव जिसमें यह स्थित है अर्थात् तृतीय भाव विश्वास, भाग्य, धार्मिक तथा अध्यात्मिक आस्था, ध्यान, त्याग, दान, पिता, गुरु, लम्बी यात्रा, उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा का द्योतक है।

स्वास्थ्य :

महादशा स्वामी शुक्र नवम भाव में स्थित है जिसके फल स्वरूप आपको कोई क्षति नहीं होगी तथा आप बिना किसी समस्या के एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे।

अर्थ-संपत्ति :

शुक्र नवम भाव में स्थित है जिसके फलस्वरूप आपको इस दशा काल में चल तथा अचल सम्पत्ति अर्जित करने का अवसर मिलेगा। आप अपने कर्म और पिता सहित गुरु जनों के आशीर्वाद से काफी धन एकत्र कर पाएँगे।

व्यवसाय :

शुक्र नवम भाव में स्थित है जिसके फलस्वरूप आप अपने पारिवारिक व्यवसाय को जारी रखेंगे। आप भाग्यशाली हैं, आपको ख्याति मिलेगी, शिक्षा-प्रशिक्षण आपके पारिवारिक व्यवसाय को बड़े स्तर में ले जाने में सहायक होगा।

आप विदेश यात्रा कर सकते हैं।

पारिवारिक जीवन :

नवम भाव में स्थित शुक्र के फलस्वरूप आपके पिता दीर्घायु और समृद्धिशाली होंगे। आपकी दान-पुण्य के कार्यों में रुचि हो सकती है। आप अपने परिवार की परंपरा का निर्वाह करते हुए धनोपार्जन करेंगे। आपके जीवन साथी आपके सहयोगी होंगे। और परिवार

को एकरूपता से प्रगति के पथ पर ले जाएंगे। आपके बच्चे आज्ञाकारी होंगे और आपके पदचिह्नों का अनुसरण करेंगे।



**अंतर्दशा :- शुक्र - शुक्र
(20/04/2030 - 20/08/2033)**

शुक्र महादशा की अवधि 20 वर्ष होती है। आपके लिए यह 20/04/2030 को प्रारंभ होकर 20/04/2050 को समाप्त होगी। इस महादशा में शुक्र की अंतर्दशा 3 वर्ष 4 मास की होगी। आपके लिए यह 20/04/2030 को प्रारंभ होकर 20/08/2033 को समाप्त होगी।

शुक्र आपकी जन्मपत्री में नवम भाव में स्थित है। नवम भाव श्रद्धा, भाग्य, धार्मिक और आध्यात्मिक विचार, अंतर्ज्ञान, भविष्यज्ञान, उपासनास्थल, पिता, धर्मगुरु, लंबी यात्राएं, हवाई यात्रा, उच्च शिक्षा और घुटनों का प्रतिनिधि है। शुक्र शुभ ग्रह है। नवम भाव में स्थित होकर शुक्र आपकी कुंडली के 3रे भाव पर दृष्टि डाल रहा है और उसके कारकत्व को प्रभावित कर रहा है।

इस अवधि में आपका व्यवहार नीतिपूर्ण रहेगा, वाणी मृदु होगी। विपरीत लिंग के व्यक्तियों से संबंध बिगड़ सकते हैं, जिससे धनहानि संभव है।

शुभत्व में वृद्धि और अरिष्ट से बचाव के लिए निम्न उपाय करें :

- चींटियों को चीनी और आटा खिलाएं।
- कन्याओं को खीर खिलाएं।
- लक्ष्मीजी की उपासना करें।